

## प्रेस नोट दिनांक-24-07-2022

### अभिसूचना विंग एवं थाना बडगांव, सहारनपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम अम्बेहटा चांद में मुनेश की हत्या का सफल अनावरण, घटना को अंजाम देने वाला 01 हत्यारोपी गिरफ्तार, घटना के दिन पहने हुए कपड़े व चप्पल बरामद:-

अवगत कराना है कि दिनांक 23-07-2022 को ग्राम अम्बेहटा चांद में श्री सुभाष पुत्र रामपाल निवासी ग्राम अम्बेहटा चांद थाना बडगांव, सहारनपुर द्वारा थाना बडगाँव पर अज्ञात अभियुक्त द्वारा उसके भाई मुनेश की हत्या करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीरी सूचना दी गई। जिसके सम्बन्ध में थाना बडगाँव पर मु0अ0सं0 135/22 धारा 302 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर घटना स्थल का मुआयना करते हुये घटना का शीघ्र अनावरण करने हेतु थाना बडगांव पुलिस को निर्देशित किया गया।

जिसके क्रम में आज दिनांक-24.07.2022 को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में अभिसूचना विंग एवं थाना बडगाँव पुलिस की संयुक्त टीम के अथक प्रयासों द्वारा उपरोक्त घटना में प्रकाश में आये अभियुक्त संजय पुत्र श्रीपाल नि0 ग्राम चन्देना माल थाना थानाभवन जनपद शामिल हाल पता ग्राम अम्बेहटा चांद थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर को ग्राम अम्बेहटा चांद में शराब के ठेके के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना के दिन पहने हुए कपड़े शर्ट पेन्ट तथा एक अदद चप्पल भी बरामद किये गये हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना बडगाँव पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1- संजय पुत्र श्रीपाल नि0 ग्राम चन्देना माल थाना थानाभवन जि0 शामिल हाल पता ग्राम अम्बेहटा चांद थाना बडगाँव जनपद स0पुर

#### बरामदगी का विवरण:-

1-मृतक के शर्ट-पेन्ट व एक अदद चप्पल

#### पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि साहब मेरी शादी करीब 20- 21 वर्ष पहले हुयी थी। मेरे ससुर तेजपाल उपरोक्त के कोई पुत्र नहीं था। जिस कारण मैं और मेरी पत्नी मेरे ससुर के मरने के बाद ग्राम अम्बेहटा चांद में ही रहने लगे थे तथा मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे थे। मुनेश पुत्र रामपाल नि0 ग्राम अम्बेहटा चांद थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर पडोस में रहता था एवं मुनेश की शादी नहीं हुयी थी, तो मुनेश के खाने-पीने का ध्यान भी मेरी पत्नी ही रखती थी। इसी बीच मेरी पत्नी के सम्बन्ध मुनेश से बन गये। जिस कारण मैं मुनेश से अन्दर ही अन्दर घृणा करने लगा और इसको जान से मारने का मौका तलाशने लगा तथा दिनांक 22.07.2022 की रात्रि 10.30 बजे के करीब मुनेश अपने घर पर अकेला सोता देखकर मैंने उसको फावड़े से बार-बार करके जान से मार दिया।

#### अपराधिक इतिहास अभियुक्त संजय पुत्र थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर

1-मु0अ0सं0 135/22 धारा 302 भादवि संजय पुत्र श्रीपाल नि0 ग्राम चन्देना माल थाना थानाभवन जनपद शामिल हाल पता ग्राम अम्बेहटा चांद थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर थाना बडगाँव सहारनपुर।

#### गिरफ्तार/सहयोगकर्ता करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- 1- श्री प्रवेश कुमार प्रभारी निरीक्षक बडगाँव, सहारनपुर।
- 2- व0उ0नि0 श्री सुभाष चन्द्र थाना बडगाँव, सहारनपुर।
- 3- उ0नि0 श्री विनोद तेवतिया थाना बडगाँव, सहारनपुर।
4. उ0नि0 श्री अजय गौड अभिसूचना विंग, सहारनपुर।
- 5- हे0का0 117 कुशलपाल सिंह थाना बडगाँव, सहारनपुर।
- 6- का0 2545 सोनु थाना बडगाँव, सहारनपुर।
7. का0 1688 सचिन शर्मा, अभिसूचना विंग, सहारनपुर।
8. का0 50 अनुराग सिंह, अभिसूचना विंग, सहारनपुर।

**थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा कार में हुए पंचर को ठीक कराकर दंपत्ति को उनके गन्तव्य के लिए किया सकुशल रवाना:-**

अवगत कराना है कि दिनांक 24-07-2022 को जनपद सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र हाइवे से एक फेमिली दहरादून से हरियाणा जा रही थी कि अचानक उनकी कार का टायर पंचर हो गया उसी समय गस्त कर रहे थाना प्रभारी रामपुर मनिहारान श्री विशाल श्रीवास्तव व उनकी टीम ने देखा की कार सवार फेमिली काफ़ी परेशान है । थाना प्रभारी ने फ़ैमिली के पास पहुँच कर उनसे पूछा तों कार सवार फेमिली ने बताया की उनकी गाड़ी में पंचर हो गया, ओर उनके पास टायर बदलने के टूल बॉक्स नहीं है, तो थाना प्रभारी ने फ़ैमिली से कहा की आप चिंता ना करें हम करेंगे आपकी मदद तो कांस्टेबल नरेश रावत ने पुलिस की गाड़ी से टूल बॉक्स निकाल कर कार का टायर बदला और दंपत्ति को उनके गन्तव्य के लिए सकुशल रवाना किया गया। इस सराहनीय कार्य की दंपत्ति द्वारा पुलिस की भूरी-भूरी प्रशंसा की गयी।

## **प्रेस नोट दिनांक 24/07/2022**

### **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-**

दिनांक 23-07-22 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सपना पुल व जोगियान पुल के बीच शिवाजी मार्ग पर किशनपुरा नाला पटरी से अभि० हारून पुत्र इरफान निवासी मौ० सिराजनान नखासा बाजार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर को 01 अदद नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु०अ०सं० 203/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।